

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 423]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 5 जुलाई 2022 — आषाढ़ 14, शक 1944

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 28 जून 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-11/2022/38-2.— छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 775/पी.यू./07/ओ.एण्ड.एस./2015/16990, दिनांक 11-05-2022 द्वारा ओ.पी. जिन्दल विश्वविद्यालय, ओ.पी. जिन्दल नॉलेज पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़ (छत्तीसगढ़) के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 19 एवं 23 तथा अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 29 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के अधीन किया गया है।

- राज्य शासन, एतद्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है।
- उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

अध्यादेश में संशोधन

अध्यादेश क्रमांक : 19, कंडिका क्रमांक – 01

उपकंडिका – 1.1

पाठ्यक्रम— पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पी जी डिप्लोमा)

क्र.	स्कूल/विभाग	विद्यमान		संस्तुत	
		विषय	अवधि	विषय	अवधि
1.	स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग	1. स्टील टेक्नालॉजी	12 माह	1. स्टील टेक्नालॉजी	12 माह
		2. पावर प्लांट इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी मैनेजमेंट		2. पावर प्लांट इंजीनियरिंग एण्ड एनर्जी मैनेजमेंट	
		3. कैड/कैम		3. कैड/कैम	
		4. इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग		4. इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग	
		5. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग		5. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग	
		6. कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन		6. कम्प्यूटर इंजीनियरिंग एण्ड एप्लीकेशन	
		7. न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी		7. न्यू एण्ड रिन्यूएबल एनर्जी	
				8. कम्प्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन	
				9. ए आई एंड मशीन लर्निंग	
				10. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट	
				11. डाटा एनालिटिक्स एंड बिग डाटा	
				12. नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी	
				13. वेब एंड एप्प डेवलपमेंट	
				14. इंटरनेट ऑफ थिंग्स	
				15. डिजिटल मार्केटिंग	
				16. वेल्डिंग एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग	
				17. प्लांट मैनेटेनेंस एंड सेफ्टी	
				18. इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ एंड इनवायरमेंट	
				19. पावर सिस्टम इकोनॉमिक्स एंड इनर्जी मैनेजमेंट	

2.	स्कूल ऑफ मैनेजमेंट	1. सप्लाय चेन मैनेजमेंट	21 माह	1. सप्लाय चेन मैनेजमेंट	12 माह
		2. हॉस्पिटालिटी एण्ड टूरिज्म मैनेजमेंट		2. हॉस्पिटालिटी एण्ड टूरिज्म मैनेजमेंट	
		3. बैंकिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेस		3. बैंकिंग एण्ड फाइनेंसियल सर्विसेस	
		4. रिटेल मैनेजमेंट		4. रिटेल मैनेजमेंट	
		5. इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट		5. इनफॉर्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट	
		6. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन		6. बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन	
		7. बिजनेस एनालिटिक्स		7. बिजनेस एनालिटिक्स	
		8. इनोवेशन एण्ड इंटरप्रेन्योरशिप		8. इनोवेशन एण्ड इंटरप्रेन्योरशिप	
		9. फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट		9. फैमिली बिजनेस मैनेजमेंट	
		10. मार्केटिंग मैनेजमेंट		10. मार्केटिंग मैनेजमेंट	
				11. ऑपरेशन्स मैनेजमेंट	
				12. डिजिटल एण्ड सोशल मिडिया मार्केटिंग	
				13. मानव संसाधन प्रबंधन	
				14. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार	
				15. वित्तीय प्रबंधन	
				16. लॉजिस्टिक एवं सप्लाय चेन मैनेजमेंट	
				17. इवेंट मैनेजमेंट	
				18. रिस्क एवं इंश्योरेंस मैनेजमेंट	

अध्यादेश क्रमांक : 23, कंडिका क्रमांक – 01

उपकंडिका – 1.1

पाठ्यक्रम— बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स (बी.एस.सी. ऑनर्स)

क्र.	विभाग	विषय	
		विद्यमान	संस्तुत
1.	फिजिकल साइंस	भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, लेजर विज्ञान एवं अनुप्रयोग, द्रव्य विज्ञान, नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान रख रखाव, विमानन, एविऑनिक्स	भौतिकी, अनुप्रयुक्त भौतिकी, लेजर विज्ञान एवं अनुप्रयोग, द्रव्य विज्ञान, नैनो मटेरियल्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमान रखरखाव, विमानन, एविऑनिक्स, इंस्ट्रुमेंटेशन
2.	केमिकल साइंस	रसायन, अनुप्रयुक्त रसायन, औद्योगिक रसायन	रसायन, अनुप्रयुक्त रसायन, औद्योगिक रसायन
3.	मेथेमेटिकल एवं कम्प्यूटेशनल साइंस	गणित, अनुप्रयुक्त गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान	गणित, अनुप्रयुक्त गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटरविज्ञान, ऑपरेशनल रिसर्च, डेटासाइंस एवं एनालिटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान सांख्यिकी गणित
4.	लाईफ साइंस	वनस्पति विज्ञान, प्राणिविज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, गृहविज्ञान, जैवरसायन विज्ञान, खाद्य और पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी	वनस्पति विज्ञान, प्राणि विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, गृहविज्ञान, जैवरसायन विज्ञान, खाद्य और पोषण, खाद्य प्रौद्योगिकी, फॉरेंसिक साइंस, जैवप्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल साइंस, जैव सूचना विज्ञान
5.	अर्थ साइंस	भूगर्भ शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान	भूगर्भ शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, भूभौतिकी

ओ. पी. जिंदल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यादेश क्रमांक 29

बैचलर ऑफ आर्टस (ऑनर्स) अर्थशास्त्र – 03 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

1. प्रयोज्यता

- 1.1 विश्वविद्यालय का प्रबंधन संकाय बैचलर ऑफ आर्टस (ऑनर्स) अर्थशास्त्र में स्नातक पाठ्यक्रम प्रस्तावित करेगा। इस स्नातक उपाधि पाठ्यक्रम की अवधि त्रिवर्षीय होगी।
- 1.2 संबंधित पाठ्यक्रम को पूरा करने के पश्चात् बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र की उपाधि प्रदान की जाएगी।
- 1.3 उक्त पाठ्यक्रम में विद्यार्थी द्वारा अर्जित किए गए ग्रेडों एवं क्रेडिटों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।

2. प्रवेश हेतु पात्रता, प्रवेश विधि एवं चयन विधि

- 2.1 इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक प्रत्येक अभ्यर्थी को हायर सेकेण्डरी (10+2) या राज्य/राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त प्रासंगिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। एकल पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदण्ड छ.ग. राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियमानुसार विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा एवं यू.जी.सी. व राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा।
- 2.2 प्रवेश नीति विश्वविद्यालय के शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जायेगा। यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों का भी अनुसरण किया जायेगा। राज्य की आरक्षण नीति लागू होगी।
- 2.3 शैक्षणिक वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व, विश्वविद्यालय प्रवेश की अधिसूचना समाचार पत्रों में/ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर/विश्वविद्यालय की सूचना पटल पर जारी करेगा। विश्वविद्यालय स्वयं का प्रवेश परीक्षा प्रवेश के लिए आयोजित कर सकता है। छात्र विश्वविद्यालय में सीधे प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं व प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।

- 2.4 अप्रवासी भारतीय (एन.आर.आई.), भारतीय मूल के व्यक्ति और विदेशी राष्ट्रीयता वाले की भी बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्र होंगे परंतु वे (10+2)/हायर सेकण्डरी परीक्षा या कोई अन्य समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जायेगा और प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाएगा।
- 2.5 विश्वविद्यालय, अन्य संस्थानों/विश्वविद्यालयों से स्थानांतरण पर बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम के विद्यार्थी को अनुमति दे सकेगा। ऐसा प्रवेश, पाठ्यक्रम के संबंध में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के अधीन किसी भी स्तर में दी जा सकेगी। परंतु यह कि, इस योजना के अधीन प्रथम वर्ष के दौरान विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- 2.6 विश्वविद्यालय, असंतोषप्रद शैक्षणिक प्रदर्शन या दुरुव्यवहार के आधार पर उसके कैरियर के किसी प्रक्रम पर उसके अध्ययन को अनियमित कर सकेगा और किसी भी विद्यार्थी के प्रवेश को रद्द करने का अधिकार, आरक्षित रखेगा।

3. पाठ्यक्रम की अवधि

- 3.1 पाठ्यक्रम की अवधि तीन वर्ष की होगी जो छः समान सेमेस्टर में विभाजित होगी।
- 3.2 अधिष्ठाता, विज्ञान विद्यापीठ द्वारा कुलपति के अनुमोदन सहित प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में शैक्षणिक कैलेंडर, जिसमें सेमेस्टर अंतराल करना सम्मिलित है, की घोषणा करेगा।
- 3.3 बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रम को पूर्ण करने हेतु अभ्यर्थियों को अधिकतम समयावधि पांच वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। पाठ्यक्रम की अधिकतम अवधि में प्रत्याहरण, अनुपस्थिति और विद्यार्थी को दिये गये विभिन्न प्रकार के अवकाश अनुमति सम्मिलित होंगे परंतु अस्थायी रूप से निकाले जाने की अवधि यदि कोई हो, अपवर्जित होगी। तथापि, विश्वविद्यालय के कुलपति कुछ विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष का विस्तार कर सकेगा।
- 3.4 प्रत्येक सेमेस्टर के प्रारंभ में, प्रत्येक विद्यार्थी को शैक्षणिक कैलेंडर में विहित समयावधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

4. पाठ्यक्रम की संरचना

बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों की संरचना, परीक्षा की योजना, पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम इस संबंध में शैक्षणिक परिषद् द्वारा निर्धारित नियम जो कि यू.जी.सी. के दिशानिर्देश के अनुसार होगी।

5. पाठ्यक्रम का शुल्क

बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण विश्वविद्यालय प्रबंध मंडल द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अनुमोदन से किया जाएगा।

6. परीक्षा

6.1 विश्वविद्यालय अध्ययन कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों के प्रदर्शन के अभिनिर्धारण के लिए सेमेस्टर एवं सेमेस्टरांत (ईएसई) के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुये सतत् मूल्यांकन प्रणाली अंगीकृत करेगा।

6.2 पाठ्यचर्या के संपूर्ण घटक के लिये प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) के साथ-साथ सेमेस्टरांत (ईएसई) परीक्षा के लिये विस्तृत परीक्षा योजना शैक्षणिक परिषद् द्वारा विहित किया जायेगा।

6.3 निम्नलिखित किन्ही कारणों से विद्यार्थियों को कुलपति के अनुमोदन से पीठ के अधिष्ठाता द्वारा सेमेस्टरांत परीक्षा में उपस्थित होने से विवर्जित किया जा सकेगा:

(क) विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जा चुका हो।

(ख) संबंधित विभागाध्यक्ष की अनुशंसा पर यदि—

(i) व्याख्यान/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाओं में उपस्थिति 75% से कम हो अथवा खण्ड 8 के अनुसार सेमेस्टर में उपस्थित हो।

(ii) सेमेस्टर के दौरान प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया हो।

6.4 विश्वविद्यालय नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में संपूर्ण परीक्षा आयोजित करेगा। यह परीक्षा सैद्धांतिक/प्रायोगिक पाठ्यक्रम में उपस्थित होने हेतु ऐसे अभ्यर्थी भी समर्थ होंगे जो पूर्व सेमेस्टर परीक्षा में असफल रहे हो या चूक गये हो।

- 6.5 यदि अभ्यर्थी सेमेस्टर परीक्षा को पूर्ण रूप से उत्तीर्ण कर लेता हो तो उसे डिवीजन/अंकों/ग्रेडों या किसी अन्य प्रयोजन से परीक्षा में पुनः बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7 कार्य का मूल्यांकन (निर्धारण)

प्रदर्शन का मूल्यांकन, प्रप्तांक के आधार पर तथा क्रेडिट के आधार पर किया जाएगा।

7.1 अंको का आधार

- (क) प्रत्येक सेमेस्टर में अभ्यर्थी प्रदर्शन का मूल्यांकन, सेमेस्टरांत परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) को सम्मिलित करते हुए सतत् मूल्यांकन प्रणाली के अनुपालन में पाठ्यचर्या के घटकों सहित किया जायेगा। पाठ्यचर्या के समग्र/अंतिम परिणाम (ईएसई+पीआरई) में अधिकतम एवं न्यूनतम अंक विद्या परिषद द्वारा घोषित परीक्षा योजना के अनुसार होगा।
- (ख) विशिष्ट पाठ्यचर्या में अर्ह होने हेतु अभ्यर्थी को उसी पाठ्य चर्चा के समग्र परिणाम में पाठ्यक्रम के लिए विद्यापरिषद के दिशा निर्देशानुसार न्यूनतम अंक अर्जित करने होंगे।

7.2 क्रेडिट का आधार

- (क) व्याख्यान में (एल) में संपर्क का एक घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा वहां ट्यूटोरियल (टी) एवं/या प्रायोगिक (पी) में संपर्क का दो घंटा एक क्रेडिट के बराबर होगा। अंतः $\text{क्रेडिट} = (\text{एल} + (\text{टी} + \text{पी}) / 2)$ विषय में क्रेडिट संपूर्ण अंक होगा किन्तु अपूर्णांक अंक नहीं होगा। यदि विषय में क्रेडिट अपूर्णांक में परिवर्तित हो जाता है तो इसे निकटतम संपूर्ण अंक को पूर्णांकित किया जायेगा।
- (ख) विद्यार्थी तब ही सेमेस्टर में आवंटित क्रेडिट अर्जित करेगा जब वह उक्त सेमेस्टर उत्तीर्ण करता हो।
- (ग) विद्यार्थी बी.ए. (ऑनर्स) अर्थशास्त्र की उपाधि प्राप्त करने के लिए तब ही पात्र होगा जब वह पाठ्यक्रम जिसमें वह प्रवेश लिया हो में आवंटित सभी क्रेडिट अर्जित करता हो।

8. उपस्थिति

किसी भी सेमेस्टर परीक्षा के लिये नियमित विद्यार्थी के रूप में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय में पृथक-पृथक आयोजित व्याख्यान एवं प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। परंतु यह कि 5 प्रतिशत तक एवं 5 प्रतिशत से कम की उपस्थिति संतोषप्रद कारण होने पर संबंधित पीठ के अधिष्ठाता एवं कुलपति द्वारा क्षमा किया जा सकता है। तथापि किसी शर्त के बिना अभ्यर्थी जिसकी सेमेस्टर में 65 प्रतिशत से कम की कुल उपस्थिति या प्रतिशत हो, जैसा कि शैक्षणिक परिषद् द्वारा विनिश्चित किया जाये, को सेमेस्टरान्त परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी जायेगी।

9. उच्च सेमेस्टर में पदोन्नति

विद्यार्थी पूर्ववर्ती सेमेस्टर के सैद्धांतिक/प्रायोगिक विषय के बैकलॉग के साथ अगले सेमेस्टर में प्रवेश ले सकता है, परंतु उसे अध्यादेश के खण्ड (3) में वर्णित निर्धारित अवधि में पाठ्यक्रम पूरा करना होगा।

10. क्रेडिट आधारित ग्रेडिंग पद्धति

- 10.1 क्रेडिट के अंतर्गत प्रत्येक पाठ्यक्रम और उसके अधिभार पाठ्यचर्या एवं शैक्षणिक नीति समिति द्वारा अनुशंसित अनुसार होंगे एवं वे शैक्षणिक परिषद एवं शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे। केवल अनुमोदित पाठ्यक्रम किसी सेमेस्टर के दौरान दिया जा सकेगा।
- 10.2 पाठ्यक्रम के लिये पंजीकृत प्रत्येक विद्यार्थी लेटर ग्रेड दिया जायेगा। विद्यार्थी को दिया गया लेटर ग्रेड सेमेस्टरान्त परीक्षा (ईएसई) एवं प्रगति समीक्षा परीक्षा (पीआरई) में उसके संयुक्त प्रदर्शन पर निर्भर होगा।

अटल नगर, दिनांक 28 जून 2022

क्रमांक एफ 3-11/2022/38-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-6-2022 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भुवनेश यादव, सचिव.

Atal Nagar, the 28th June 2022

NOTIFICATION

No. F 3-11/2022/38-2.— Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 775/PU/07/O&S/2015/16990, Dated 11-05-2022 has approved the amendments of Ordinance No. 19 and 23 & New Ordinance No. 29 of O.P. Jindal University, O.P. Jindal Knowledge Park, Village-Punjipathara, Tehsil- Gharghoda, District-Raigarh (Chhattisgarh), Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government, hereby, gives its approval for notification of these Ordinance in Official Gazette.
3. The above Ordinance shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
BHUVANESH YADAV, Secretary.

AMENDMENT IN ORDINANCES**Ordinance No.- 19, Clause No.: 01****Sub Clause: 1.1**

Program: Post Graduate Diploma (PG Diploma)

S. No.	School/ Department	Existing		Substituted by	
		Subjects	Duration	Subjects	Duration
1.	School of Engineering	1. Steel Technology	12 Months	1. Steel Technology	12 Months
		2. Power Plant Engineering & Energy Management		2. Power Plant Engineering & Energy Management	
		3. CAD/CAM		3. CAD/CAM	
		4. Environmental Engineering		4. Environmental Engineering	
		5. Industrial Engineering		5. Industrial Engineering	
		6. Computer Engineering and Application		6. Computer Engineering and Application	
		7. New and Renewable Energy		7. New and Renewable Energy	
				8. Computer Science and Application	
				9. AI and Machine Learning	
				10. Software Testing and Development	
				11. Data Analytics and Big Data	
				12. Networking Technology	
				13. Web and app development	
				14. Internet of Things	
				15. Digital Marketing	
				16. Welding and Quality Engineering	
				17. Plant maintenance and Safety	
				18. Industrial Safety, Health and Environment	
				19. Power System Economics & Energy Management	

2.	School of Management	1. Supply Chain Management	21 Months	1. Supply Chain Management	12 Months
		2. Hospitality and Tourism Management		2. Hospitality and Tourism Management	
		3. Banking and Financial Services		3. Banking and Financial Services	
		4. Retail Management		4. Retail Management	
		5. Information Technology and Management		5. Information Technology and Management	
		6. Business Administration		6. Business Administration	
		7. Business Analytics		7. Business Analytics	
		8. Innovation and Entrepreneurship		8. Innovation and Entrepreneurship	
		9. Family Business Management		9. Family Business Management	
		10. Marketing Management		10. Marketing Management	
				11. Operations Management	
				12. Digital and Social Media Marketing	
				13. Human Resource Management	
				14. International Business	
				15. Financial Management	
				16. Logistics and Supply Chain Management	
				17. Event Management	
				18. Risk and Insurance Management	

Ordinance No.- 23, Clause No.: 01**Sub Clause: 1.1****Program: Bachelor of Science with Honors (B. Sc. Honors)**

S. No.	Department	Subjects	
		Existing	Substituted by
1.	Physical Science	Physics, Applied Physics, Laser Science & Applications, Material Science, Nano materials, Nanotechnology, Electronics, Aircraft Maintenance, Aviation, Avionics	Physics, Applied Physics, Laser Science & Applications, Material Science, Nano materials, Nanotechnology, Electronics, Aircraft Maintenance, Aviation, Avionics, Instrumentation
2.	Chemical Sciences	Chemistry, Applied Chemistry, Industrial Chemistry	Chemistry, Applied Chemistry, Industrial Chemistry
3.	Mathematical and Computational Sciences	Mathematics, Applied Mathematics, Statistics, Computer Science	Mathematics, Applied Mathematics, Statistics, Computer Science, Operational Research, Data Science, Data Science & Analytics, Information Technology, Computer Science Statistics & Mathematics(CSM)
4.	Life Sciences	Botany, Zoology, Microbiology, Home Science, Bio Chemistry, Food and Nutrition, Food Technology	Botany, Zoology, Microbiology, Home Science, Bio Chemistry, Food and Nutrition, Food Technology, Forensic Science, Biotechnology, Biomedical Science, Bioinformatics
5.	Earth Sciences	Geology, Environmental Science	Geology, Environmental Science, Geophysics

O P JINDAL UNIVERSITY, RAIGARH (C. G.)**ORDINANCE NO.29
BACHELOR OF ARTS (B.A.) HONOURS IN ECONOMICS
THREE YEAR DEGREE COURSE****1. APPLICABILITY**

- 1.1 The Faculty of Management of the University shall offer undergraduate course: Bachelor of Arts (B.A.) Honours in Economics. This undergraduate degree course shall be of three-year duration.
- 1.2 The degree of B.A. (Hons) Economics shall be awarded after successful completion of the respective course.
- 1.3 The evaluation shall be on the basis of grades and credits earned by the student in each subject of this course.

2. ADMISSION PROCEDURE & METHOD OF SELECTION

- 2.1 Every candidate seeking admission in this course must have passed Higher Secondary (10+2) or relevant course recognized from recognized State/National/International Board/University in any discipline. The eligibility criterion for admission in the course will be decided by the Academic Council of the University and as per the norms laid down by government of Chhattisgarh/UGC.
- 2.2 The Admission policy shall be decided by the Academic Council of the University. The guidelines issued by the UGC and the State Government shall be adhered to. The State reservation policy shall be applicable.
- 2.3 The University will issue admission notifications in newspapers/on the University's website/notice board of the University etc., before the start of the academic year. The University may conduct its own entrance examination for admission. The students may also secure direct admission in the University and the admission will be given on the basis of merit.
- 2.4 Non-Resident Indians (NRI), Persons of Indian Origin (PIO) and Foreign National shall also be eligible for admission to B.A. (Hons) Economics course, provided they have passed (10 + 2)/Higher Secondary Examination or any other equivalent examination. Admission to such candidates shall be made on the basis of the entrance test conducted by the OP Jindal University and the admission will be given on the basis of merit.

- 2.5 The University may permit a student to B.A. (Hons) Economics course on transfer from other Institutes/Universities. Such admissions may be made at any level subject to fulfillment of academic requirements of the University in respect of the program, provided that, no student shall be admitted during the first year, under this scheme.
- 2.6 The University reserves the right to cancel the admission of any student and ask him/her to discontinue his/her studies at any stage of his/her career on the grounds of unsatisfactory academic performance or misconduct.

3. DURATION OF THE COURSE

- 3.1 The duration of the course shall be three years and divided into six equal semesters.
- 3.2 The academic calendar including semester breaks shall be declared by the Dean of the School at the beginning of each year with the approval of the Vice Chancellor.
- 3.3 The maximum duration available to a student for completion of B.A. (Hons) Economics course shall be of five years. The maximum duration of the course shall include the period of withdrawal, absence and different kinds of leave permissible to a student, but it shall exclude the period of rustication, if any. However, the Vice Chancellor of the University may extend one-year duration in some special circumstances.
- 3.4 At the beginning of each semester, every student shall have to register him/herself within the duration prescribed in the academic calendar.

4. STRUCTURE OF THE COURSE

The structure of B.A. (Hons) Economics course, scheme of examination, curriculum and syllabi shall be such as may be prescribed by the Academic Council in accordance with the UGC guidelines in this regard.

5. FEE FOR THE COURSE

Fee for the B.A. (Hons) Economics course shall be such as may be decided by the Board of Management of the University with the approval of Chhattisgarh Private University Regulatory Commission (CGPURC).

6. EXAMINATIONS

- 6.1 The University shall adopt the system of continuous evaluation consisting of Progress Review Examination (PRE) during the semester and End Semester Examination (ESE) for assessing the students' performance during the programme of study.
- 6.2 The detailed examination scheme for PRE as well as ESE for all components of the curriculum shall be laid down by the Academic Council.

- 6.3 A student may be debarred from appearing in the End Semester Examination by the Dean of the school with the approval of the Vice Chancellor, due to any of the following reasons:
- (a) Disciplinary action has been taken against the student.
 - (b) On the recommendation of concerned head of the department, if
 - (i) The attendance in the Lecture/Tutorial/Practical classes is below 75% or as provided in clause (8) of attendance, in the semester.
 - (ii) The performance in the PRE during the semester has been found unsatisfactory.
- 6.4 The University shall conduct full examination at the end of each semester for the regular students. This examination will also enable those students to appear in the theory / practical courses who may have failed or missed the previous semesters' examination.
- 6.5 If a candidate has passed a semester examination in full he/she shall **NOT** be permitted to reappear in that examination for improvement in division/marks/grades or for any other purpose.

7. EVALUATION / ASSESSMENT OF PERFORMANCE

The evaluation/assessment of the performance shall be done on the basis of marks as well as on the basis of credits:

7.1 BASIS OF MARKS

- (a) The performance of a candidate in each semester shall be evaluated with the component of the curriculum following the system of continuous evaluation consisting of PRE and ESE. The maximum and minimum marks in the final result (PRE+ ESE) of each subject of the course shall be as per the examination scheme declared by the Academic Council.
- (b) To pass (qualify) a particular subject of the respective course, a candidate has to score minimum marks in the composite result of that subject as per the guidelines of the Academic Council.

7.2 BASIS OF CREDITS

- (a) One hour of contact lecture (L) shall be equal to one credit whereas two hours of contact tutorial (T) and / or practical (P) shall be equal to one credit. Thus, $\text{Credit} = \{L + (T+P)/2\}$. Credit in a subject shall be a whole number, not fractional number. If a credit in a subject turns out in fraction, then it shall be rounded up to nearest whole number.
- (b) A candidate shall earn the credits allotted to a semester only when he/she passes the said semester.
- (c) A candidate shall be eligible for the award of degree of B.A. (Hons) Economics, only when he/she earns all the credits allotted to the course in which he / she has taken admission.

8. ATTENDANCE

Candidates appearing as regular students for any semester examination are required to attend at least 75% of the lectures and practical classes held separately in each subject of the course of study, provided that a short fall in attendance up to 5% and a further 5% can be condoned by the Dean of the School and Vice-Chancellor of the University respectively for satisfactory reasons. However, under no condition, a candidate who has an aggregate attendance of less than 65% or the percentage as may be decided by the Academic Council in a semester shall be allowed to appear in the End Semester Examination.

9. PROMOTION TO HIGHER SEMESTERS

A student shall be allowed to carry the backlog/s of theory/practical subjects of the preceding semester but he/she should complete the course within stipulated duration as mentioned in clause (3) of this ordinance.

10. CREDIT BASED GRADING SYSTEM

- 10.1 Each course along with its weightage in terms of credits shall be recommended by the concerned Curriculum and Academic Policy Committee and shall be approved by the Academic Council and the Governing Body. Only approved courses can be offered during any semester.
- 10.2 Each student registered for a course, shall be awarded a letter grade. The letter grade awarded to a student shall depend upon his combined performance in the PRE and ESE.